

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24, 1982/वैशाख 4, 1904
No. 155] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL, 24 1982/VAISAKHA 4, 1904

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह सलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

अम संचालय

अधिलेखना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1982

का० खा० 282(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अप्रैल, 1982 के 25वें दिन की उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो

पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“ज़िला कुरनूल के गोण्डीपारला राजस्वग्राम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।”

[संख्या एस०-38013/12/82-एच० आई०]

ए० के० भट्टराई, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 1982

S.O. 282(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 25th day of April, 1982 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

“The areas comprised within the revenue village of Gondiparla, District Kurnool.”

[No. S-38013/12/82-HI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.